



Khushbu Kumari

06 Mar 2004

11:19 PM

Giridih

Model: Web-MyKundli

Order No: 121561001

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 06/03/2004
दिन _____: शनिवार
जन्म समय _____: 23:19:00 घंटे
इष्ट _____: 43:11:05 घटी
स्थान _____: Giridih
राज्य _____: Jharkhand
देश _____: India

अक्षांश _____: 24:10:00 उत्तर
रेखांश _____: 86:20:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: 00:15:20 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 23:34:20 घंटे
वेलान्तर _____: -00:11:14 घंटे
साम्पातिक काल _____: 10:33:31 घंटे
सूर्योदय _____: 06:02:33 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:49:34 घंटे
दिनमान _____: 11:47:01 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: वसन्त
सूर्य के अंश _____: 22:35:03 कुम्भ
लग्न के अंश _____: 07:01:40 वृश्चिक

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: वृश्चिक - मंगल
राशि-स्वामी _____: सिंह - सूर्य
नक्षत्र-चरण _____: पू०फाल्गुनी - 2
नक्षत्र स्वामी _____: शुक्र
योग _____: धृति
करण _____: बव
गण _____: मनुष्य
योनि _____: मूषक
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: वनचर
वर्ग _____: श्वान
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: टा-टपकेश्वरी
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मीन

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1925	फाल्गुन	16
पंजाबी	संवत : 2060	फाल्गुन	23
बंगाली	सन् : 1410	फाल्गुन	22
तमिल	संवत : 2060	मासी	23
केरल	कोल्लम : 1179	कुंभम	23
नेपाली	संवत : 2060	फाल्गुन	23
चैत्रादि	संवत : 2060	फाल्गुन	शुक्ल 15
कार्तिकादि	संवत : 2060	फाल्गुन	शुक्ल 15

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 15
तिथि समाप्ति काल _____ : 28:44:17
जन्म तिथि _____ : 15
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मघा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 11:52:03 घंटे
जन्म योग _____ : पू०फाल्गुनी
सूर्योदय कालीन योग _____ : सुकर्मा
योग समाप्ति काल _____ : 08:20:49 घंटे
जन्म योग _____ : धृति
सूर्योदय कालीन करण _____ : विष्टि
करण समाप्ति काल _____ : 17:13:46 घंटे
जन्म करण _____ : बव
भयात _____ : 28:37:22
भभोग _____ : 59:10:33
भोग्य दशा काल _____ : शुक्र 10 वर्ष 4 मा 15 दि

घात चक्र


मास _____ : ज्येष्ठ
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शनिवार
नक्षत्र _____ : मूल
योग _____ : धृति
करण _____ : बव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मेष
लग्न _____ : मीन
सूर्य _____ : धनु
चन्द्र _____ : वृश्चिक
मंगल _____ : मकर
बुध _____ : तुला
गुरु _____ : कुम्भ
शुक्र _____ : मीन
शनि _____ : वृश्चिक
राहु _____ : मेष

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

	रा मं शु		श
बु सू			
			गु चं
	ल	के	

लग्न कुण्डली

	रा मं शु		बु सू
श			
चं गु		के	ल

विंशोत्तरी
शुक्र 10वर्ष 4मा 15दि
शुक्र

06/03/2004

23/07/2114

शुक्र	22/07/2014
सूर्य	21/07/2020
चन्द्र	22/07/2030
मंगल	22/07/2037
राहु	22/07/2055
गुरु	22/07/2071
शनि	22/07/2090
बुध	23/07/2107
केतु	23/07/2114

योगिनी

उल्का 3वर्ष 1मा 10दि
धान्या

17/04/2025

17/04/2028

धान्या	17/07/2025
भ्रामरी	16/11/2025
भद्रिका	17/04/2026
उल्का	17/10/2026
सिद्धा	18/05/2027
संकटा	16/01/2028
मंगला	16/02/2028
पिंगला	17/04/2028


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			वृश्चि	07:01:40	313:48:46	अनुराधा	2	17	मंगल	शनि	बुध	---
सूर्य			कुंभ	22:35:03	01:00:02	पू०भाद्रपद	1	25	शनि	गुरु	शनि	शत्रु राशि
चंद्र			सिंह	19:45:01	13:31:00	पू०फाल्गुनी	2	11	सूर्य	शुक्र	राहु	मित्र राशि
मंगल			मेष	26:44:46	00:38:28	कृतिका	1	3	मंगल	सूर्य	सूर्य	स्वराशि
बुध	अ		कुंभ	25:01:21	01:55:53	पू०भाद्रपद	2	25	शनि	गुरु	बुध	सम राशि
गुरु	व		सिंह	19:43:14	00:07:50	पू०फाल्गुनी	2	11	सूर्य	शुक्र	राहु	मित्र राशि
शुक्र			मेष	07:10:43	01:06:25	अश्विनी	3	1	मंगल	केतु	राहु	सम राशि
शनि	व		मिथु	12:22:28	00:00:06	आर्द्रा	2	6	बुध	राहु	शनि	मित्र राशि
राहु	व		मेष	18:47:11	00:09:31	भरणी	2	2	मंगल	शुक्र	राहु	शत्रु राशि
केतु	व		तुला	18:47:11	00:09:31	स्वाति	4	15	शुक्र	राहु	चंद्र	सम राशि
हर्ष			कुंभ	09:39:16	00:03:23	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	गुरु	---
नेप			मक	20:10:11	00:02:00	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	केतु	---
प्लूटो			वृश्चि	28:14:42	00:00:36	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	शनि	---
दशम भाव			सिंह	12:43:19	--	मघा	--	10	सूर्य	केतु	बुध	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:54:45


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	तुला 22:58:37	वृश्चिक 07:01:40
2	वृश्चिक 22:58:37	धनु 08:55:33
3	धनु 24:52:30	मकर 10:49:26
4	मकर 26:46:23	कुम्भ 12:43:19
5	कुम्भ 26:46:23	मीन 10:49:26
6	मीन 24:52:30	मेष 08:55:33
7	मेष 22:58:37	वृष 07:01:40
8	वृष 22:58:37	मिथुन 08:55:33
9	मिथुन 24:52:30	कर्क 10:49:26
10	कर्क 26:46:23	सिंह 12:43:19
11	सिंह 26:46:23	कन्या 10:49:26
12	कन्या 24:52:30	तुला 08:55:33


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	वृश्चिक	07:01:40
2	धनु	06:54:47
3	मकर	09:07:42
4	कुम्भ	12:43:19
5	मीन	14:39:17
6	मेष	12:36:32
7	वृष	07:01:40
8	मिथुन	06:54:47
9	कर्क	09:07:42
10	सिंह	12:43:19
11	कन्या	14:39:17
12	तुला	12:36:32


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल
पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी
भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शुक्र 10 वर्ष 4 मास 15 दिन

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष
06/03/2004	22/07/2014	21/07/2020	22/07/2030	22/07/2037
22/07/2014	21/07/2020	22/07/2030	22/07/2037	22/07/2055
00/00/0000	सूर्य 08/11/2014	चंद्र 22/05/2021	मंगल 18/12/2030	राहु 03/04/2040
00/00/0000	चंद्र 10/05/2015	मंगल 21/12/2021	राहु 06/01/2032	गुरु 27/08/2042
00/00/0000	मंगल 15/09/2015	राहु 22/06/2023	गुरु 11/12/2032	शनि 03/07/2045
06/03/2004	राहु 09/08/2016	गुरु 21/10/2024	शनि 20/01/2034	बुध 21/01/2048
राहु 20/09/2004	गुरु 28/05/2017	शनि 22/05/2026	बुध 17/01/2035	केतु 07/02/2049
गुरु 22/05/2007	शनि 10/05/2018	बुध 21/10/2027	केतु 16/06/2035	शुक्र 08/02/2052
शनि 22/07/2010	बुध 16/03/2019	केतु 21/05/2028	शुक्र 15/08/2036	सूर्य 02/01/2053
बुध 22/05/2013	केतु 22/07/2019	शुक्र 20/01/2030	सूर्य 21/12/2036	चंद्र 04/07/2054
केतु 22/07/2014	शुक्र 21/07/2020	सूर्य 22/07/2030	चंद्र 22/07/2037	मंगल 22/07/2055

गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष
22/07/2055	22/07/2071	22/07/2090	23/07/2107	23/07/2114
22/07/2071	22/07/2090	23/07/2107	23/07/2114	00/00/0000
गुरु 08/09/2057	शनि 25/07/2074	बुध 18/12/2092	केतु 19/12/2107	शुक्र 21/11/2117
शनि 22/03/2060	बुध 03/04/2077	केतु 15/12/2093	शुक्र 17/02/2109	सूर्य 22/11/2118
बुध 28/06/2062	केतु 13/05/2078	शुक्र 15/10/2096	सूर्य 25/06/2109	चंद्र 22/07/2120
केतु 03/06/2063	शुक्र 12/07/2081	सूर्य 21/08/2097	चंद्र 24/01/2110	मंगल 21/09/2121
शुक्र 01/02/2066	सूर्य 24/06/2082	चंद्र 20/01/2099	मंगल 22/06/2110	राहु 07/03/2124
सूर्य 21/11/2066	चंद्र 24/01/2084	मंगल 18/01/2100	राहु 11/07/2111	00/00/0000
चंद्र 22/03/2068	मंगल 04/03/2085	राहु 07/08/2102	गुरु 16/06/2112	00/00/0000
मंगल 26/02/2069	राहु 09/01/2088	गुरु 12/11/2104	शनि 26/07/2113	00/00/0000
राहु 22/07/2071	गुरु 22/07/2090	शनि 23/07/2107	बुध 23/07/2114	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शुक्र 10 वर्ष 3 मा 27 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

चंद्र - शनि 21/10/2024 22/05/2026	चंद्र - बुध 22/05/2026 21/10/2027	चंद्र - केतु 21/10/2027 21/05/2028	चंद्र - शुक्र 21/05/2028 20/01/2030	चंद्र - सूर्य 20/01/2030 22/07/2030
शनि 20/01/2025 बुध 12/04/2025 केतु 16/05/2025 शुक्र 20/08/2025 सूर्य 18/09/2025 चंद्र 05/11/2025 मंगल 09/12/2025 राहु 06/03/2026 गुरु 22/05/2026	बुध 03/08/2026 केतु 02/09/2026 शुक्र 28/11/2026 सूर्य 24/12/2026 चंद्र 05/02/2027 मंगल 07/03/2027 राहु 24/05/2027 गुरु 31/07/2027 शनि 21/10/2027	केतु 03/11/2027 शुक्र 08/12/2027 सूर्य 19/12/2027 चंद्र 06/01/2028 मंगल 18/01/2028 राहु 19/02/2028 गुरु 19/03/2028 शनि 21/04/2028 बुध 21/05/2028	शुक्र 31/08/2028 सूर्य 30/09/2028 चंद्र 20/11/2028 मंगल 26/12/2028 राहु 27/03/2029 गुरु 16/06/2029 शनि 20/09/2029 बुध 16/12/2029 केतु 20/01/2030	सूर्य 29/01/2030 चंद्र 14/02/2030 मंगल 24/02/2030 राहु 24/03/2030 गुरु 17/04/2030 शनि 16/05/2030 बुध 11/06/2030 केतु 21/06/2030 शुक्र 22/07/2030
मंगल - मंगल 22/07/2030 18/12/2030	मंगल - राहु 18/12/2030 06/01/2032	मंगल - गुरु 06/01/2032 11/12/2032	मंगल - शनि 11/12/2032 20/01/2034	मंगल - बुध 20/01/2034 17/01/2035
मंगल 31/07/2030 राहु 22/08/2030 गुरु 11/09/2030 शनि 04/10/2030 बुध 26/10/2030 केतु 03/11/2030 शुक्र 28/11/2030 सूर्य 06/12/2030 चंद्र 18/12/2030	राहु 14/02/2031 गुरु 06/04/2031 शनि 05/06/2031 बुध 30/07/2031 केतु 21/08/2031 शुक्र 24/10/2031 सूर्य 12/11/2031 चंद्र 14/12/2031 मंगल 06/01/2032	गुरु 20/02/2032 शनि 14/04/2032 बुध 01/06/2032 केतु 21/06/2032 शुक्र 17/08/2032 सूर्य 03/09/2032 चंद्र 01/10/2032 मंगल 21/10/2032 राहु 11/12/2032	शनि 14/02/2033 बुध 12/04/2033 केतु 05/05/2033 शुक्र 12/07/2033 सूर्य 01/08/2033 चंद्र 04/09/2033 मंगल 28/09/2033 राहु 27/11/2033 गुरु 20/01/2034	बुध 13/03/2034 केतु 03/04/2034 शुक्र 02/06/2034 सूर्य 20/06/2034 चंद्र 20/07/2034 मंगल 10/08/2034 राहु 04/10/2034 गुरु 21/11/2034 शनि 17/01/2035
मंगल - केतु 17/01/2035 16/06/2035	मंगल - शुक्र 16/06/2035 15/08/2036	मंगल - सूर्य 15/08/2036 21/12/2036	मंगल - चंद्र 21/12/2036 22/07/2037	राहु - राहु 22/07/2037 03/04/2040
केतु 26/01/2035 शुक्र 20/02/2035 सूर्य 27/02/2035 चंद्र 12/03/2035 मंगल 21/03/2035 राहु 12/04/2035 गुरु 02/05/2035 शनि 25/05/2035 बुध 16/06/2035	शुक्र 26/08/2035 सूर्य 16/09/2035 चंद्र 21/10/2035 मंगल 15/11/2035 राहु 18/01/2036 गुरु 15/03/2036 शनि 21/05/2036 बुध 21/07/2036 केतु 15/08/2036	सूर्य 21/08/2036 चंद्र 01/09/2036 मंगल 08/09/2036 राहु 27/09/2036 गुरु 14/10/2036 शनि 04/11/2036 बुध 22/11/2036 केतु 29/11/2036 शुक्र 21/12/2036	चंद्र 07/01/2037 मंगल 20/01/2037 राहु 21/02/2037 गुरु 21/03/2037 शनि 24/04/2037 बुध 24/05/2037 केतु 05/06/2037 शुक्र 11/07/2037 सूर्य 22/07/2037	राहु 17/12/2037 गुरु 27/04/2038 शनि 30/09/2038 बुध 17/02/2039 केतु 15/04/2039 शुक्र 27/09/2039 सूर्य 15/11/2039 चंद्र 05/02/2040 मंगल 03/04/2040

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	6
भाग्यांक	6
मित्र अंक	3, 4, 6, 9
शत्रु अंक	1, 7, 8
शुभ वर्ष	24,33,42,51,60
शुभ दिन	रवि, सोम, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, चन्द्र, मंगल
मित्र राशि	वृश्चिक, मेष
मित्र लग्न	कुम्भ, कर्क, कन्या
अनुकूल देवता	सूर्य
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	मोती
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	94%	व्यावसायिक उन्नति, धन, सन्तति सुख
मोती	चंद्र	77%	व्यावसायिक उन्नति, भाग्योदय
माणिक्य	सूर्य	73%	सुख, व्यावसायिक उन्नति
मूंगा	मंगल	59%	शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
नीलम	शनि	34%	दुर्घटना, पराक्रम हानि, ग्रह कलेश
पन्ना	बुध	22%	ग्रह कलेश, दुर्घटना, हानि
लहसुनिया	केतु	3%	व्यय, शत्रु व रोग
हीरा	शुक्र	0%	शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट, व्यय
गोमेद	राहु	0%	शत्रु व रोग



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शुक्र	22/07/2014	61%	64%	59%	34%	94%	0%	47%	9%	16%
सूर्य	21/07/2020	86%	83%	65%	22%	100%	0%	9%	0%	0%
चंद्र	22/07/2030	80%	89%	59%	34%	94%	0%	34%	0%	0%
मंगल	22/07/2037	80%	83%	72%	0%	100%	0%	34%	0%	16%
राहु	22/07/2055	61%	64%	43%	22%	94%	0%	47%	22%	0%
गुरु	22/07/2071	80%	83%	65%	0%	100%	0%	34%	0%	3%
शनि	22/07/2090	61%	64%	43%	34%	94%	0%	55%	9%	0%
बुध	23/07/2107	80%	64%	59%	47%	94%	0%	34%	0%	3%
केतु	23/07/2114	61%	64%	65%	22%	94%	0%	9%	0%	28%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	01/11/2006-10/01/2007 16/07/2007-10/09/2009 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 -----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028 -----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	13/07/2034-27/08/2036 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	27/08/2036-22/10/2038 05/04/2039-13/07/2039 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 -----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057 -----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	13/10/2065-03/02/2066 03/07/2066-30/08/2068 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	30/08/2068-04/11/2070 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076
अष्टम स्थानस्थ ढैया	20/03/2084-21/05/2086 21/05/2086-08/02/2087 -----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	बदनामी
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	सम	व्यावसायिक परेशानी
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	धनार्जन
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	अशुभ	बुरा स्वास्थ्य
अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	सन्तति

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में है। यह भाव शत्रु रोग तथा ऋण आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। अतः इस भाव में मंगल के प्रभाव से आप एक पराकमी महिला होंगी तथा शत्रु या प्रतिद्वन्दियों को पराजित करने में समर्थ रहेंगी। साथ ही शरीर में रोगाभाव रहेगा एवं सामान्यतया आप स्वस्थता की ही अनुभूति करेंगी। आप पराकमी एवं कठोर कार्यों को सम्पन्न करने में रुचिशील रहेंगी। अतः आप (या कार्यरत न होने पर आपके पति) पुलिस सेना या अन्य पराकमी विभागों में कार्यरत हो सकती हैं। जीवन में ऋण आदि लेने की आपको कम ही आवश्यकता पड़ेगी तथा यदि लेंगी भी तो वापस करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी जिससे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनी रहेगी। साथ ही आप जीवन में इच्छित धन ऐश्वर्य एवं लाभ भी अर्जित करेंगी। आपके प्रभावी व्यक्तित्व से सभी लोग प्रभावित रहेंगे।

षष्ठ भाव से नवम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि के प्रभाव से धर्म एवं धार्मिक कार्यकलापों में आपकी अल्प मात्रा में ही रुचि रहेगी तथा भाग्य की अपेक्षा आप कार्य करने पर अधिक विश्वास करेंगी। अतः आपके सांसारिक कार्यों की सिद्धि भाग्यबल की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक कर्म करने से ही पूर्ण होगी। द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि के प्रभाव से आपका व्यय अधिक होगा तथा जीवन में शुभाशुभ दोनों प्रकार के व्ययों को करने में तत्पर रहेगी। यदा कदा आपको शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधानों का भी सामना करना पड़ेगा लेकिन इनको दूर करने में आप समर्थ रहेंगी साथ ही दाम्पत्य सुख का आप सामान्य रूप से उपभोग करने में समर्थ होंगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप समय समय पर गर्मी या रक्त विकार संबंधी परेशानी की अनुभूति कर सकती है लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप अपने समस्त कार्यों को उत्साह पराक्रम एवं परिश्रम से सम्पन्न करके उनमें इच्छित सफलताएं अर्जित करेंगी।

इस प्रकार षष्ठ भावस्थ मंगल की स्थिति आपके लिए सामान्यतया अच्छी रहेगी जिसके प्रभाव से आप धनऐश्वर्य से युक्त रहेंगी तथा परिवार का आधुनिक परिवेश में लालन पालन करने में समर्थ रहेंगी। जिससे पारिवारिक सुख शान्ति बनी रहेगी तथा उनसे आप पूर्ण सुख एवं सहयोग को प्राप्त करेंगी। अतः प्रसन्नता पूर्वक आप अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने में समर्थ रहेंगी।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- चन्द्र पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है।
- पंचम भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव है।
- लग्नेश षष्ठ भाव में स्थित है और उस पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में चन्द्र, मंगल और गुरु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें। दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें। ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ

आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुंडली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें। विद्यालय में पुस्तकों का दान करें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

चतुर्थभाव में सूर्य हो तो जातक परमसुन्दर, कठोर, पितृधननाशक, चिन्तास्त, भाईयों से वैर करने वाला, गुप्तविद्या प्रिय एवं वाहन सुखहीन होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, कोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्मकाल में सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा एवं समय समय पर वे शारीरिक व्याकुलता की अनुभूति करेंगे। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव विद्यमान रहेगा। धन वैभव से वे प्रायः युक्त रहेंगे एवं जीवन में सर्वप्रकार से आपको सहयोग प्रदान करने के लिए यत्नशील रहेंगे। आप उनसे सामान्यतया धन सम्मान एवं वाहनादि भी प्राप्त करेंगी। इसके साथ ही वे व्यापार तथा अजीविका सम्बन्धी कार्यों में भी आपकी सहायता करेंगे।

आपके मन में उनके प्रति सामान्य श्रद्धा का भाव विद्यमान रहेगा एवं इच्छानुसार यदाकदा उनकी आज्ञा का अनुपालन भी करती रहेंगी। परन्तु आपके आपसी सम्बन्ध मधुर नहीं रहेंगे एवं परस्पर कई प्रकार के मतभेद विद्यमान रहेंगे फिर भी आप अपनी ओर से उन्हें कम से कम कष्टानुभूति के लिये सतत् प्रयत्नशील रहेंगी एवं अवसरानुकूल उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी।

चन्द्र

दसवेंभाव में चन्द्रमा हो तो जातक कार्यकुशल, व्यापारी, कार्यपरायण, सुखी, यशस्वी, विद्वान्, कुल-दीपक, दयालु, निर्बल बुद्धि, सन्तोषी लोकहितैषी, मानी, प्रसन्नचित्त एवं दीर्घायु होता है।

सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दृढ़देही, दाँत तथा पेट का रोगी, मातृभक्त, अल्पसन्ततिवान्, गम्भीर, दानी, साहसी, शान दिखाने वाला अभिमानी, महत्वाकांक्षी एवं पुराने विचारों वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति दशम भाव में है। अतः माता का आप पूर्ण स्नेह प्राप्त करेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। धन सम्पत्ति तथा अन्य आवश्यक सुख संसाधनों से वे युक्त रहेंगी तथा जीवन के आवश्यक कार्यों में आपको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आप आजीविका, व्यापार तथा यश प्राप्ति भी उन्हीं के सहयोग से अर्जित करने में सफल होंगी।

आप उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखेंगी एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा यदा कदा आपस में सैद्धान्तिक मतभेद होंगे किन्तु उससे आपके संबंधों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी

उनकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा हर सम्भव उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगी। इस प्रकार आप एक दूसरों के लिए सामान्य रूप से शुभ ही समझी जाएंगी।

मंगल

छटेभाव में मंगल हो तो जातक बलवान्, धैर्यशाली, प्रबल जठराग्नि, कुलवन्त, प्रचण्ड शक्ति, शत्रुहन्ता, ऋणी, दादरोगी, कोधी, पुलिस अफसर, व्रण और रक्तविकार युक्त एवं अधिकव्यय करने वाला होता है।

मेष राशि में मंगल हो तो जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान्, लोकमान्य, दानी एवं राजमान्य होता है।

आपके जन्म समय में मंगल छटे भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों की आप प्रिय रहेंगी एवं उनसे सम्मान एवं स्नेह की नित्य आपको प्राप्त होती रहेगी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति होती रहेगी। धन सम्पत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में आपको अपनी ओर से आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। सुख दुःख में वे पूर्ण रूपेण आपके साथ रहेंगे एवं शत्रु वर्ग से आपकी यत्नपूर्वक सुरक्षा करेंगे।

आपका भी उनके प्रति हार्दिक प्रेम रहेगा एवं उनके कल्याण संबंधी कार्यों को करने में तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे लेकिन यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण अल्प मात्रा में कटुता का भी आभास होगा लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनको पूर्ण आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करके अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कष्टानुभूति नहीं होने देंगी।

बुध

चतुर्थभाव में बुध हो तो जातक पण्डित भाग्यवान् नीतिवान्, नीतिज्ञ, लेखक, विद्वान्, बन्धुप्रेमी, उदार, गतिप्रिय, आलसी, स्थूलदेही, वाहनसुखी एवं दानी होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

गुरु

दशमभाव में गुरु हो तो जातक सुकर्म करने वाला, प्रसिद्ध और सम्मानित प्रतिष्ठित पद पर आसीन, सदाचारी, पुण्यात्मा, ऐश्वर्यवान्, साधु, चतुर, न्यायी, प्रसन्न, ज्योतिषी, सत्यवादी, शत्रुहन्ता, राजमान्य, स्वतन्त्र विचारक, मातृपितृ भक्त, लाभवान्, धनी एवं भाग्यवान् होता है।

सिंह राशि में गुरु हो तो जातक धार्मिक, प्रेमी, कार्यकुशल, सभाचतुर शत्रुजित्, आकर्षकव्यक्तित्व, उच्चाकांक्षी, सक्रिय, सुखी, कुशाबुद्धि साहित्य की ओर झुकाव, लेखक एवं

उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है।

शुक्र

षष्ठभाव में शुक्र हो तो जातक मितव्ययी, शत्रुनाशक, स्त्रीप्रिय, स्त्रीसुखहीन, बहुमित्रवान्, वैभवहीन, दुराचारी, मूत्ररोगी, दुःखी एवं गुप्तरोगी होता है।

मेष राशि में शुक्र हो तो जातक स्वप्न जगत में विचारने वाला, आवेशपूर्ण स्वभाव, अस्थिरमन, दुःखी, बुद्धिमान्, आरामतलब, दुराचारी, परस्त्रीरत, झगड़ालू विश्वास हीन एवं अधिक खर्च करने वाला होता है।

शनि

अष्टम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान् स्थूलशरीर, उदार प्रकृति, कपटी, गुप्तरोगी, वाचाल, डरपोक, कुष्ठरोगी एवं धूर्त होता है।

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक दुराचारी, कपटी, कामी, पाखण्डी, निर्धन, दुःखी एवं संकीर्ण मन वाला होता है।

राहु

षष्ठभाव में राहु हो तो जातक शत्रुहन्ता, कमरदर्द पीड़ित, अरिष्टनिवारक, विदेशियों से लाभ, पराक्रमी, बड़े-बड़े कार्य करनेवाला, दीर्घायु, साहसी, धनी एवं प्रसिद्ध होता है।

मेष राशि में राहु हो तो जातक-पराक्रमहीन, आलसी, अविवेकी एवं अनैतिक चरित्र होता है।

केतु

बारहवें भाव में केतु हो तो जातक चंचल बुद्धि, धूर्त, ढग तांत्रिक, अतव्ययी निर्बल स्वास्थ्य, पागलपन, मोक्ष प्राप्ति, अविश्वासी एवं जनता को भूत-प्रेतों की जानकारी द्वारा ढगने वाला होता है।

तुला राशि में केतु हो तो जातक कुष्ठरोगी, दुःखी, क्रोधी एवं कामी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- चन्द्र
(21/07/2020 - 22/07/2030)

चन्द्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपकी कुण्डली में यह 21/07/2020 को आरंभ और 22/07/2030 को समाप्त होगी।

चन्द्र दशम भाव में अवस्थित है। दशम भाव प्रतिष्ठा, सार्वजनिक सम्मान, शक्ति तथा इज्जत, सफलता तथा साख, आदर तथा ख्याति, उत्तरदायित्व, पदोन्नति, नियुक्ति, उच्च पद, शासन से सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। अतः दस वर्षों की यह अवधि आपके लिए शुभ होगी और आपको शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

आपको सुखमय तथा उत्तम जीवन की प्राप्ति होगी। इस अवधि में किसी बड़े रोग या चोट की संभावना नहीं है और आप बिना किसी बाधा के स्वस्थ जीवन का आनन्द लेंगे।

अर्थ और सम्पत्ति :

चन्द्र वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि में आप अपनी सम्पत्तियों और आर्थिक स्थिति का विस्तार करने में सफल होंगे। आपकी चल-अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके बैंक-बैलेंस में भी वृद्धि होगी और इस तरह आप समृद्धिशाली होंगे।

व्यवसाय :

चंद्र दशम अर्थात् अपने ही भाव में अवस्थित है और दशम भाव व्यवसाय और जीवन-वृत्ति का प्रतीक है। इसलिए आप अपने व्यवसाय में अत्यधिक सफलता प्राप्त करेंगे। आपको आदर तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप सेवारत हैं तो जीवन में उन्नति के अनेक अवसर आपको मिलेंगे और आप प्रगति करेंगे। यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके मस्तिष्क में नये व्यवसायों के अनेक विचार उभरेंगे। व्यवसाय में आपकी साख तथा स्थिति में वृद्धि होगी। श्रेष्ठजन तथा सहकर्मी आपके विचारों की सराहना करेंगे और आप व्यवसाय में अगुआ होंगे।

पारिवारिक जीवन :

आपके जीवन साथी आपके सहायक होंगे। आप का पारिवारिक जीवन सुखमय होगा क्योंकि आपकी व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपके जीवन साथी आप की व्यावसायिक वृत्ति में भी सहायक होंगे।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

आप अध्यात्म की उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। आप पुराणों और आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन भी करेंगे।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - शनि
(21/10/2024 - 22/05/2026)**

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इस महादशा में शनि की अंतर्दशा 1 वर्ष 7 मास रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 21/07/2020 को प्रारंभ हुई और 22/07/2030 को समाप्त होगी। शनि अंतर्दशा 21/10/2024 को प्रारंभ होकर 22/05/2026 को समाप्त होगी।

शनि आपकी जन्मपत्रिका के अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आयु, विरासत, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुख, चिंता, निराशा, हानि, बाधा, चोरी और डकैती का प्रतिनिधि है। शनि आयुष्कारक है। इसके अष्टम भाव में स्थित होने से आपकी आयु लंबी रहेगी। अष्टम भाव में स्थित होकर शनि आपकी कुंडली के 10, 2, 5 भावों पर दृष्टि द्वारा अपना प्रभाव डाल रहा है।

इस अवधि में आप उत्तरदायित्वों का निर्वाह धैर्य और परिश्रम द्वारा सभी बाधाओं को पार करने के बाद करेंगे। नेत्र और श्वसन तंत्र के रोगों से बचाव करें। ईमानदारी और दयाभाव बनाए रखें।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए चांदी की अंगूठी में नौमुखी रुद्राक्ष को शनिवार के दिन शिवजी की पूजा करने के बाद शनि के वैदिक मंत्र का जाप करते हुए धारण करें।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - बुध
(22/05/2026 - 21/10/2027)**

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इस महादशा में बुध की अंतर्दशा 1 वर्ष 5 मास रहेगी।

आपके लिए चंद्र महादशा 21/07/2020 को प्रारंभ हुई थी और 22/07/2030 को समाप्त होगी। इसमें बुध की अंतर्दशा 22/05/2026 को प्रारंभ होकर 21/10/2027 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्रिका के चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, स्वयं का मकान, घरेलू वातावरण, व्यक्तिगत संबंध, वाहन, बाग-बगीचे, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, दूध, तालाब और झील आदि का प्रतिनिधि है। चतुर्थ भाव में स्थित होकर बुध जन्मपत्रिका के दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कार्यकत्व पर प्रभावी हो रहा है।

इस अवधि में आप शिक्षाशास्त्री हो सकते हैं। आप नीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे और राजनैतिक विषयों पर अपने विचार निडर होकर सत्यता से व्यक्त करेंगे। सम्मान में वृद्धि होगी। संगीत और ललित कलाओं में रुचि रहेगी। विदेश यात्रा भी संभव है। वाहन सुख उत्तम होगा।

शुभत्व में वृद्धि के लिए 6 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में बुधवार को प्रातःकाल, गंगाजल या दूध से धोकर बुध गायत्री मंत्र का जाप करते हुए धारण करें।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - केतु
(21/10/2027 - 21/05/2028)**

चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इसके अंतर्गत केतु अंतर्दशा 7 मास की रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 21/07/2020 को प्रारंभ हुई ओर 22/07/2030 को समाप्त होगी। केतु अंतर्दशा 21/10/2027 को प्रारंभ होकर 21/05/2028 को समाप्त होगी।

केतु आपकी जन्मपत्रिका के द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव हानि, बाधाएं, धन के दुरुपयोग, धोखा, दान, परिवार से अलगाव, दुख, छुपे दुश्मन, कांड, गुप्त दुख, शैयासुख और विदेश में जीवनयापन का संकेतक है। द्वादश में स्थित होकर केतु आपकी कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। केतु और राहु छायाग्रह हैं जिनकी कोई राशि नहीं होती। वास्तव में वे चंद्रमा के दो पात हैं। मनुष्य के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है।

इस अवधि में आपका मष्तिष्क बेचैन हो सकता है; आप इधर-उधर भटक सकते हैं। विदेश भी जा सकते हैं। गरीब लोगों की सहायता करेंगे। अपने स्तर के लोगों के साथ व्यवहार में सावधानी की आवश्यकता है। भटकने के कारण संचित धन में कमी आ सकती है।

अरिष्ट से बचाव के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र के 72,000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - शुक्र
(21/05/2028 - 20/01/2030)**

चंद्र की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपके लिए यह 21/07/2020 को प्रारंभ होकर 22/07/2030को समाप्त होगी।

इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 21/05/2028 को प्रारंभ होकर 20/01/2030 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्रिका के छठे भाव में स्थित है। छठे भाव बीमारी, सुश्रुषा, मातहत या सेवक, कर्ज, शत्रु, कंजूसी और अतिकष्ट का द्योतक है। शुक्र शुभ ग्रह है। छठे भाव में स्थित होकर यह आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर दृष्टि डाल कर उसे शुभत्व प्रदान कर रहा है। इस अवधि में आपके मधुर व्यवहार के कारण आपका कोई शत्रु नहीं होगा। विपरीत लिंग के व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होंगे और लाभप्राप्ति में सहायक होंगे। उनसे संबंधों में अति से सावधान रहना चाहिए।

अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें :

1. चींटियों को शक्कर और आटा दें।
2. कन्याओं को खीर खिलाएं।
3. भोजन से पहली चपाती निकालकर गाय को दें।
4. लक्ष्मीजी की उपासना करें।

**महादशा :- मंगल
(22/07/2030 - 22/07/2037)**

मंगल की महादशा 22/07/2030 को आरम्भ होगी और 7 वर्ष की होकर 22/07/2037 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल षष्ठम भाव में स्थित है। मंगल की दृष्टि बारहवे भाव, लग्न तथा नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी 10 वर्ष की चन्द्रदशा चल रही थी। आपको समृद्धि की प्राप्ति हुई होगी, आपकी यात्रा हुई होगी और धन तथा धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव रहा होगा। इस दशा के दौरान विरोधियों पर आपको विजय तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और विदेशी स्रोतों से संभावित लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य :

इस दशा में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। कभी-कभी कुछ मौसमी कारणों से आप ज्वर, संक्रामक बीमारी, उच्च रक्तचाप या पेट से सम्बन्धित बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। सुरक्षात्मक उपायों से इन रोगों से मुक्ति हो सकती है; अन्यथा आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अर्थ और व्यवसाय :

आपका बैंक बैलेंस सृष्टढ़ होगा। आपको विरोधियों या शत्रुओं से लाभ मिलेगा। केस-मुकदमें में विजय होगी और निर्णय आपके पक्ष में होगा। इस दशा में कार्य-क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल होगी। जीविका के लिए इन्जीनियरिंग, प्रशासनिक सेवा, सैन्य सेवा, चिकित्सा

क्षेत्र, रसायनज्ञ के कार्य अथवा सेवा कार्य का चयन कर सकते हैं।

परिवार :

परिवार में आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे। आपकी सन्तान से आपको लाभ होगा। उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवनसाथी के साथ संबंध सन्तोषजनक रहेंगे। आपकी माता को उनके सम्बन्धियों व छोटी यात्राओं से लाभ होगा। आपके पिता को यश, ख्याति, शक्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी। उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई-बहनों की जमीन-जायदाद में वृद्धि और जीवन-वृत्ति में उन्नति होगी जबकि बड़ों के लिए यह समय परिवर्तन का होगा जो अंततः लाभदायक होगा। मित्रों के चयन के प्रति सावधान रहें।

अन्तर्दशा :

मंगल की मुख्य दशा में आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आगे आनेवाली राहु दशा में कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा में लाभ तथा संतान से सुख मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा में छोटी यात्राएँ और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप परिवर्तन व लाभ की प्राप्ति होगी जबकि केतु की अन्तर्दशा में कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप साझेदारी में लाभ, विवाद और यात्राएँ होंगी जबकि उसके बाद सूर्य की अन्तर्दशा के कारण जीवन में उन्नति होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा में समृद्धि की प्राप्ति, यात्रा ओर आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव होगा।

**अंतर्दशा :- मंगल - मंगल
(22/07/2030 - 18/12/2030)**

आपके लिए मंगल की महादशा 22/07/2030 को प्रारंभ हुई है। इस महादशा के अंतर्गत प्रथम अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 22/07/2030 को प्रारंभ होकर 18/12/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल वीरता, साहस, अचल संपत्ति और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आप शत्रुओं और विरोधियों पर विजयी होंगे। मातहत आज्ञाकारी रहेंगे, मगर निगरानी आवश्यक है। किरायेदार सहयोग करेंगे; किराये से अच्छी आमदनी हो सकती है। रोगनिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। आप स्वतंत्र, प्रतिस्पर्धा में कुशल और रौबदाब वाले होंगे। छोटी-मोटी चोटों से बचाव करें। यात्राएं होंगी, अध्यात्म में रुचि हो सकती है। खर्च बढ़ेंगे।

आपके जीवनसाथी के खर्च बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी। आपके पिता को कार्यों में सफलता मिलेगी। माता को पड़ोसियों से लाभ होगा; छोटी यात्राएं हो सकती हैं। भाई-बहन जायदाद क्रय कर सकते हैं। बड़े भाई-बहनों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है या अचानक धन मिल सकता है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम रहेगी। अगर वे सेवारत हैं तो धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो समय सौभाग्यशाली रहेगा। व्यापारी सफल रहेंगे। परामर्शदाताओं का समय भी शुभ रहेगा।

पित्तरोगों, मामूली चोट, खून की खराबी आदि से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए लाल वस्तुएं, लाल चंदन और तांबे आदि का दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - राहु
(18/12/2030 - 06/01/2032)**

आपके लिए मंगल की महादशा 22/07/2030 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी। आपके लिए यह 18/12/2030 को प्रारंभ होकर 06/01/2032 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक लाभ, परिवर्तन और लंबी यात्राओं का कारक है।

इस अवधि में आपके धन और सम्मान में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय होगी। शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता उत्तम रहेगी; सब बाधाएं पार करेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके कर्मचारी या मातहत वफ़ादार रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत लाभ होगा। खर्च बढ़ सकते हैं। पराविद्या या समाजकार्य में रुचि ले सकते हैं।

आपके जीवनसाथी की यात्राएं हो सकती हैं या विदेशियों से संपर्क बढ़ सकता है।

आपके पिता कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपकी माता लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। आपके भाई-बहन भौतिक सुख-साधन क्रय करेंगे, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

आपकी संतान अगर शिक्षारत हैं तो घर से दूर जा सकते हैं। अगर वे कार्यरत हैं तो धन कमाएंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी। परामर्शदाता सुखी रहेंगे। व्यापारियों की लंबी यात्राएं हो सकती हैं; विदेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। चोट आदि से बचाव करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम रहेगी। अरिष्ट से बचाव के लिए शनिवार को शिवजी की पूजा भैरव रूप में करें।

